

**B.Ed.(1) — Learn &
Teach (3)**

2018

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Pass Marks : 36

*Candidates are required to give their answers in
their own words as far as practicable.*

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The questions are of equal value.

सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं ।

Answer five questions, selecting

one question from each Unit.

प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न का चयन करते हुए

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दें ।

Unit – I

इकाई – I

1. What do you mean by learning ? Discuss its characteristics.

अधिगम से आप क्या समझते हैं ? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें ।

BD – 3/2

(Turn over)

2. Discuss the cognitive theory of learning as a pedagogic principle.

अधिगम के शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त के रूप में संज्ञानात्मक सिद्धान्त की विवेचना करें ।

Unit – II

इकाई – II

3. How hereditary factors influence learning ? Explain.

वंशानुगत कारक अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं ? व्याख्या करें ।

4. How is forgetting ? What are the factors that affect it ?

विस्मरण क्या है ? इसे कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं ?

Unit – III

इकाई – III

5. What is Pre-active phase of Teaching ? Discuss the role of teacher in Pre-active Phase of Teaching.

BD – 3/2

(2)

Contd.

शिक्षण की पूर्व-क्रियात्मक अवस्था क्या है ? शिक्षण के पूर्व-क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें ।

6. Discuss the need of professional growth of Teacher.

शिक्षक के व्यवसायिक विकास की आवश्यकताओं की विवेचना करें ।

Unit – IV

इकाई – IV

7. What is Lesson Plan ? Differentiate between unit plan and lesson plan.

पाठ योजना क्या है ? इकाई योजना और पाठ योजना में अन्तर स्पष्ट करें ।

8. What is Group Discussion ? How Group discussion can be used in Teaching ? Explain.

समूह चर्चा क्या है ? शिक्षण में समूह चर्चा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ? वर्णन करें ।

Unit – V

इकाई – V

9. Explain the functions of teacher in the post-active phase of teaching.

शिक्षण के अवस्था में शिक्षक की उत्तर क्रियात्मक कार्यों का वर्णन करें ।

10. What is feedback ? What is the importance of feedback in teaching learning process ?

पृष्ठपोषण (प्रतिपुष्टि) क्या है ? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषण का क्या महत्व है ?

